



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13062025-263767
CG-DL-E-13062025-263767

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2508]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 12, 2025/ज्येष्ठ 22, 1947

No. 2508]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 12, 2025/JYAISTHA 22, 1947

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2025

का.आ. 2572(अ).—केंद्रीय सरकार केंद्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 459 (अ) तारीख 24 जनवरी, 2025 जो भारत के असाधारण राजपत्र सं. 455, भाग – II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) तारीख 27 जनवरी, 2025 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पंजाब राज्य में इंडियन ऑयल कोर्पोरेशन लिमिटेड को एल.पी.जी. के परिवहन के लिए, जालंधर - गोइंदवाल साहिब एल.पी.जी. पाइपलाइन परियोजना के तहत, सुच्ची पिंड (जालंधर) गांव से चंडेर महापुरख (गोइंदवाल साहिब) तक पाइपलाइन को तहसील - फगवाड़ा, जिला- कपूरथला, राज्य- पंजाब में बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को 11.03.2025 तक उपलब्ध करा दी गई थी। और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केंद्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और केंद्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है।

अतः अब, केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

और केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केंद्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगी।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बंधित किसी भी मामले पर केंद्रीय सरकार के विरुद्ध कोई दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची							
तहसील : फगवाड़ा			जिला : कपूरथला		राज्य : पंजाब		
क्र. सं.	हदबस्त न०	गाँव का नाम	मुसतील न.	किल्ला न. / सर्वे न.	क्षेत्रफल		
					हे.	एअर	वर्ग. मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	87	मेरा	9	25	00	05	57
				रास्ता	00	00	31
				रास्ता	00	02	25
				24/4	00	01	10
				24/3	00	01	25
				24/1	00	00	47
				23/1	00	05	37
				रास्ता	00	00	28
				22/2	00	00	71
				19/2	00	02	74
				रास्ता	00	00	09
				19/3/1	00	00	32
				19/3/2	00	00	18
				1187	00	05	36
				1188	00	05	37
2	83	चहेड़		1189	00	05	37
				1190/1	00	03	36
				1190/2	00	02	02
				1191	00	05	47

1	2	3	4	5	6	7	8
				1258	00	05	69
				1257	00	05	03
				1256	00	04	83
				1255	00	04	83
				1254	00	04	83
				1253	00	04	83
				1252	00	04	83
				1251	00	04	83
				1249	00	00	27
				1366	00	04	56
				1367	00	04	97
				1368	00	00	27
				1369/1	00	02	68
				1369/2	00	02	15
				1372/1	00	00	40
				1372/2	00	02	68
				1372/3	00	01	74
				603	00	00	35

[फा. सं. आर-11025/1/2024-ओआर-I/ई-48970]

शशि शेखर सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**New Delhi, the 10th June, 2025

S.O. 2572(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, published in the Extraordinary Gazette of India no. 455, Part-II, section-3, sub-section (ii) dated 27th January 2025 vide S.O. No. 459(E) dated 24th January 2025 issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the Purpose of laying of Pipeline from Suchi Pind (Jalandhar) to Chander Mahapurakh (Goindwal Sahib) under Jalandhar – Goindwal Sahib LPG Pipeline Project by Indian Oil Corporation Limited in Tehsil: Phagwara of Kapurthala District in State of Punjab for transportation of LPG.

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public by 11.03.2025. And whereas, under sub-section (1) of section 6 of the said Act the Competent Authority has submitted report to the Central Government.

And whereas, the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

Schedule											
Tehsil: Phagwara			District: Kapurthala			State: Punjab					
SL. No.	Hadbast No.	Name of Village	Mustil No.	Killa /Survey No.	Area						
					Hectare	Are	Sq.meter				
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	87	Maira	9	25	00	05	57				
				Raasta	00	00	31				
				Raasta	00	02	25				
				24/4	00	01	10				
				24/3	00	01	25				
				24/1	00	00	47				
				23/1	00	05	37				
				Raasta	00	00	28				
				22/2	00	00	71				
				19/2	00	02	74				
				Raasta	00	00	09				
				19/3/1	00	00	32				
				19/3/2	00	00	18				
				2	83	Chaheru		1187	00	05	36
								1188	00	05	37
1189	00	05	37								
1190/1	00	03	36								

1	2	3	4	5	6	7	8
				1190/2	00	02	02
				1191	00	05	47
				1258	00	05	69
				1257	00	05	03
				1256	00	04	83
				1255	00	04	83
				1254	00	04	83
				1253	00	04	83
				1252	00	04	83
				1251	00	04	83
				1249	00	00	27
				1366	00	04	56
				1367	00	04	97
				1368	00	00	27
				1369/1	00	02	68
				1369/2	00	02	15
				1372/1	00	00	40
				1372/2	00	02	68
				1372/3	00	01	74
				603	00	00	35

[F. No. R-11025/1/2024-OR-I/E-48970]

SHASHI SHEKHAR SINGH, Under Secy.